



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 9] नई दिल्ली, मार्च 23—मार्च 29, 2008, शनिवार/चैत्र 3—चैत्र 9, 1930
No. 9] NEW DELHI, MARCH 23—MARCH 29, 2008, SATURDAY/CHAITRA 3—CHAITRA 9, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2008

आ. अ. 27.—जबकि, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी (2) में यथा विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तंभ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्विनिर्माण गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और जबकि, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

सारणी

क्रम संख्या	निर्वाचन क्षेत्र का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरर्हता के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007	1- सेवहारा	श्री नासिर हुसैन, मौ. इस्लामनगर, नूरपुर, उत्तर प्रदेश	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007	1-सेवहारा	श्री मतलूब, ग्रा. देहरी जुम्नन, पो. कोठी खितमतपुर, जि. मुरादाबाद	निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
3.	-वही-	2-धामपुर	श्री टीकम सिंह, ग्रा. दौलताबाद, स्योहारा।	-वही-
4.	-वही-	-वही-	श्री आले हसन, मौ. नई बस्ती नौगाँवा, सादाता, जे.पी. नगर।	-वही-
5.	-वही-	3-अफजलगढ़	श्री शेख अफजाल, मौ. इमामबाड़ा, शेरकोट, तह. धामपुर, जिला बिजनौर।	-वही-
6.	-वही-	-वही-	श्री आबिद, ग्रा. व पो. टाण्डा, माईदास, तह. नगीना, जि. बिजनौर।	-वही-
7.	-वही-	-वही-	श्री राजपाल, ग्रा. साहूवाला, गोसाईवाला, तह. नगीना, जिला बिजनौर।	-वही-
8.	-वही-	4-नगीना (अ.जा.)	श्री सुरेन्द्र कुमार, ग्रा. पित्थापुर, पो. स्योहारा	-वही-
9.	-वही-	5-नजीमाबाद (अ.जा.)	श्री ऋषिपाल सिंह, मौ. जाबतागंज, नजीबाबाद, जि. बिजनौर।	-वही-
10.	-वही-	-वही-	श्रीराम, बी/4/11/380 लेखानगर, मेरठ कैन्ट।	-वही-
11.	-वही-	6-बिजनौर	श्रीमती नय्यर मलिक मौ. लुकमानपुर, किरतपुर, बिजनौर।	-वही-
12.	-वही-	-वही-	श्री समीउल्लाह, ग्रा. हुसैनपुर हमीद, हबीबवाला, अफजलगढ़, जिला बिजनौर।	-वही-
13.	-वही-	7-चांदपुर	श्री मेघराज, ग्रा. व पो. रौनिया, तह. चान्दपुर, जि. बिजनौर।	-वही-
14.	-वही-	8-काँठ	श्री छतरपाल, ग्रा. फूलपुर मिठनपुर, तह. काँठ, उत्तर प्रदेश।	-वही-
15.	-वही-	10-हसनपुर	श्री विजय सिंह, ग्रा. रहमापुर माफी, डाक बछरायूं, तह. धनौरा, जे.पी. नगर।	-वही-
16.	-वही-	-वही-	श्री सतवीर सिंह, मौहल्ला कोर्ट पूर्वी, हसनपुर, जे.पी. नगर।	-वही-
17.	-वही-	10-हसनपुर	श्री अबरार अहमद, मौहल्ला कानूनगोयान, चौधरियान, धनौरा, जे.पी. नगर।	-वही-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007	10-हसनपुर	श्री शीशपाल सिंह, ग्रा. पुटसल, डाक उझारी, तह. हसनपुर, जे.पी. नगर ।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
19.	-वही-	12-सम्भल	श्री शिवनरायन सैनी, लखौरी जलालपुर, उत्तर प्रदेश ।	-वही-
20.	-वही-	-वही-	श्री मुवाहिद हुसैन, गली आलम वाली मौ. दीपा सराय, सम्भल ।	-वही-
21.	-वही-	-वही-	मुहम्मिद बिलाल, मौ. लोधी सराया, सम्भल ।	-वही-
22.	-वही-	-वही-	श्री शरीफ अहमद, मौ. कोट पूर्वी उ. सम्भल, उत्तर प्रदेश ।	-वही-
23.	-वही-	13-बहजोई	श्री नीरज कुमार, ग्रा. कैली, पो. ऐंचोली, मुरादाबाद ।	-वही-
24.	-वही-	-वही-	श्री जफरुद्दीन, ग्रा. मिलक मऊ भूड, पो. पंवासा, मुरादाबाद ।	-वही-
25.	-वही-	-वही-	श्री जितेन्द्र सिंह, ग्रा. नगला खाकम, तह. चन्दौसी, मुरादाबाद ।	-वही-
26.	-वही-	-वही-	मौ. युसुफ, मौ. सादक सराय, सिरसी, मुरादाबाद ।	-वही-
27.	-वही-	-वही-	श्री शाहिद अली, ग्रा. व. पो. पाठकपुर, मुरादाबाद ।	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे ।
28.	-वही-	14-चन्दौसी (अ.ज.)	श्री महावीर सिंह, भगवन्तपुर, पो. व तह. शाहबाद, जि. रामपुर ।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
29.	-वही-	-वही-	श्री महाराम सिंह, पंचशील कालोनी, गऊशाला रोड चन्दौसी, डा. चन्दौसी, थाना चन्दौसी, त. चन्दौसी, जि. मुरादाबाद ।	-वही-
30.	-वही-	15-कुन्दरकी	श्रीमती रामेश्वरी, ज्ञानी वाली बस्ती, लाइनपार, मुरादाबाद ।	-वही-
31.	-वही-	-वही-	श्री आरिफ पाशा, चक फाजलपुर, उत्तर प्रदेश ।	-वही-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007	15-कुन्दरकी	श्री राकेश चौधरी, चिड़िया ठेर, उत्तर प्रदेश ।	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे ।
33.	-वही-	-वही-	श्री गोवेन्द्र सिंह, खाबरी गन्दू, उत्तर प्रदेश ।	-वही-
34.	-वही-	-वही-	श्री नरोत्तम सिंह सैनी, मुड़िया जैन, उत्तर प्रदेश ।	-वही-
35.	-वही-	-वही-	श्री श्याम लाल, उदरनपुर चक उर्फ बीरमपुर, उत्तर प्रदेश ।	-वही-
36.	-वही-	16-मुरादाबाद पश्चिम	डा. किरन सिंह तोमर एफ-92 सैक्टर 13, दिल्ली रोड, नया मुरादाबाद ।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
37.	-वही-	-वही-	श्री संजीव, मो. चाऊ की मढ़ैया, लाइनपार, शहर, मुरादाबाद	-वही-
38.	-वही-	17-मुरादाबाद	श्री रईसन, मौ. बखलान, उत्तरी, मुरादाबाद ।	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे।
39.	-वही-	-वही-	श्री निजाम हुसैन (पम्मा), सक्का दोयम मुगलपुरा, जामा मजिस्द, मुरादाबाद ।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
40.	-वही-	-वही-	मौ. हामिद रजा, मौ. असातपुरा, इस्लामनगर, गली नं. 1, मुरादाबाद ।	-वही-
41.	-वही-	18-मुरादाबाद-देहात	श्री जाकिर हुसैन, ग्रा. व पो. चौदपुर, जि. मुरादाबाद ।	-वही-
42.	-वही-	-वही-	श्री लोकेश कुमार सिंह, ग्रा. घोण्डा, पो. रोण्डा, तह. व जिला मुरादाबाद ।	-वही-
43.	-वही-	-वही-	श्री जितेन्द्र सिंह, ग्रा. कुकर झुण्डी, पो. नेवला कलां, मुरादाबाद ।	-वही-
44.	-वही-	-वही-	श्री धर्मवीर सिंह राणा, मौ. मियां बिल्डिंग, स्टेशन रोड, सिविल लाईन, रामपुर ।	-वही-
45.	-वही-	-वही-	श्री रामपाल सिंह, ग्रा. डिलरा रायपुर, तह. व जि. मुरादाबाद ।	-वही-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
46.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007	18—मुरादाबाद-देहात	श्री साबिर हुसैन, गुईयाँबाग ऑशिक हाल, नि. पीतल बस्ती, कच्ची बस्ती, मुरादाबाद ।	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे।
47.	-वही-	19—ठाकुरद्वारा	श्री ओंकार, मिलक अमावती, ठाकुरद्वारा ।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
48.	-वही-	-वही-	श्री करन सिंह, मौ. ताली, ठाकुरद्वारा ।	-वही-
49.	-वही-	28—बदायूं	श्री मुकेश जौहरी, चौबे हुसैनी गली, बदायूं ।	-वही-
50.	-वही-	-वही-	श्री राजेश कुमार, सिरसौली, बदायूं ।	-वही-
51.	-वही-	30—बिनावर	श्री कृष्ण पाल, ग्रा. मुल्लापुर, पो. सिकरोडी, तह. व जि. बदायूं ।	-वही-
52.	-वही-	-वही-	श्री वीरेन्द्र, ग्रा. वरामालदेव, थाना उझानी, तह. व जि. बदायूं ।	-वही-
53.	-वही-	-वही-	श्री सत्येन्द्र सिंह किररूआ, पो. गुलडिया, तह. व जि. बदायूं ।	-वही-
54.	-वही-	32—आंवला	श्री लोक पाल, ग्रा. नवाबपुरा, डा. व्योधन खुर्द, तह. आंवला, जि. बरेली ।	-वही-
55.	-वही-	33—सुन्हा	श्री पूजा कश्यप, 1173 तिलक कालोनी, सुभाषनगर, बरेली ।	-वही-
56.	-वही-	34—फरीदपुर (अ.जा.)	श्री रामसहाय, ग्रा. जगनिया हरवार मुहाल, डा. लौगपुर, तह. फरीदपुर, जि. बरेली ।	-वही-
57.	-वही-	35—बरेली कैन्टोनमेंट	इफतिदार उद्दीन, ग्रा. ठिरिया निजावतखाँ, तह. सदर, बरेली ।	-वही-
58.	-वही-	36—बरेली सिटी	श्री जावेद खाँ, म. नं. 86, निकट फैयाज बिल्डिंग, कोहाडापीर, बरेली ।	-वही-
59.	-वही-	36—बरेली सिटी	श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल, आर-4, रामपुर बाग, बरेली ।	-वही-
60.	-वही-	-वही-	श्री हिमांशु पाण्डेय, 229-चौधरी मोहल्ला, बरेली ।	-वही-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
61.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007	36-बरेली सिटी	श्री हरि बाबू मो. मिर्धान फरीदपुर, बरेली ।	निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
62.	-वही-	37-नावबगंज	श्री दिनेश कुमार, ग्रा. हरदुआ किरफायतुल्ला, थाना व पो. नवाबगंज ।	-वही-
63.	-वही-	38-भोजीपुरा	मो. इसर खां, कंजादासपुर इज्जतनगर, बरेली ।	-वही-
64.	-वही-	-वही-	श्री रोहन लाल, ग्रा. कासिमपुर धुन्सा, बरेली ।	-वही-
65.	-वही-	-वही-	श्री शैहरयार खां, ग्रा. विवियापुर चौधरी, बरेली ।	-वही-
66.	-वही-	-वही-	श्री झम्मन लाल, ग्रा. कासिमपुर धुन्सा, बरेली ।	-वही-
67.	-वही-	39-कांवर	श्री आभा सिंह, डी-11/35, रामपुर बाग, बरेली ।	-वही-
68.	-वही-	-वही-	श्री महीपाल सिंह, ग्रा. व्यौधा, पो. शेरगढ़, बरेली ।	-वही-
69.	-वही-	40-बहेड़ी	श्री शुएब रजा खां, मो. शाहगढ़, बहेड़ी, बरेली ।	-वही-
70.	-वही-	40-बहेड़ी	श्री ओम प्रकाश, पंजाबी कालोनी वार्ड नं. 2, बहेड़ी बरेली ।	-वही-
71.	-वही-	43-बीसलपुर	श्री सत्यभान सिंह, शिवाजी नगर, वी.टी.सी. कालेज के सामने, उत्तर प्रदेश ।	-वही-
72.	-वही-	-वही-	श्री राम प्रताप, ग्रा. व पो. जोगीठेर, बीसलपुर, उत्तर प्रदेश ।	-वही-
73.	-वही-	44-पूरनपुर	श्री मनजीत सिंह, ग्रा. शेरपुर मकरन्दपुर, अनुभाग-2, पूरनपुर ।	-वही-
74.	-वही-	-वही-	श्री नत्थू बख्श, मो. साहूकारा, पूरनपुर ।	-वही-
75.	-वही-	-वही-	मो. उद्दीन, मो. नरायनपुर खास, कस्बा खुटार, शाहजहांपुर ।	-वही-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
76.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007	44-पूरनपुर	श्री दिवाकर शुक्ला, 280, ग्रामीण क्षेत्र, पुरनपुर ।	निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दखिल करने में असफल रहे ।
77.	-वही-	-वही-	श्री रामरतन, ग्रा. सुवानपुर, तह. पुवायां, शाहजहांपुर ।	-वही-
78.	-वही-	68-संडीला	श्री अरून कुमार, फत्तेपुर पथरौली प.-2, बेंहदर, हरदोई ।	-वही-
79.	-वही-	-वही-	श्री रामकुमार, ग्रा. घुसपाहा, पो. कुडौनी, हरदोई ।	-वही-
80.	-वही-	69-अहिरौरी (अ.जा.)	श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा, नि. महमूदपुर, संडीला, हरदोई ।	-वही-
81.	-वही-	71-बावन (अ.जा.)	श्री हरिराम, कल्लपुरवा मजरा अटवा, असिगांव ।	-वही-
82.	-वही-	-वही-	श्री विशम्भर नाथ, अब्दुल वारी मजरा बीहट, तह. शाहाबाद, हरदोई ।	-वही-
83.	-वही-	-वही-	श्री मोहन लाल, साबिरपुर, पो. बावन, हरदोई ।	-वही-
84.	-वही-	-वही-	श्री सोबरन लाल, कोईलीपुरवा मजरा, बरगावां ।	-वही-
85.	-वही-	72-पिहानी	श्री पीयूष पाणि शुक्ला, 178-वोर्डिंग हाऊस, हरदोई ।	-वही-
86.	-वही-	73-शाहाबाद	श्री गंगासागर, ग्रा. अहमदपुर, पो. पाली, जि. हरदोई ।	-वही-
87.	-वही-	-वही-	श्री महिपाल, ग्रा. अहमदपुर, पो. पाली, जि. हरदोई ।	-वही-
88.	-वही-	-वही-	श्री मेवाराम, ग्रा. बडौरा, पो. बरवन, जि. हरदोई ।	-वही-
89.	-वही-	-वही-	श्री हरीराम, ग्रा. व पो. खितौली, जि. हरदोई ।	-वही-
90.	-वही-	74-बिलग्राम	श्री मुकेश चन्द्र, ग्रा. घोडीथर, पो. सितौली, हरदोई ।	-वही-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
91.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007	74-बिलग्राम	श्री संजय पाण्डेय, ग्रा. व पो. सवायजपुर, हरदोई ।	निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
92.	-वही-	75-मल्लावाँ	श्री अनिल कुमार पटेल; ग्रा. व पो. ईश्वरपुर साई, हरदोई ।	
93.	-वही-	-वही-	श्री जगन्नाथ प्रसाद, ग्रा. तेन्दुआ, पो. मल्लावाँ, हरदोई ।	-वही-
94.	-वही-	-वही-	श्री राम भजन, ग्रा. व पो. पुरवावाँ ।	-वही-
95.	-वही-	91-बछरावाँ (अ.जा.)	श्री राजेन्द्र कुमार, 92ए शान्ती नगर, सरोजनी नगर, लखनऊ ।	-वही-
96.	-वही-	92-तिलोई	श्री शमी उल्ला, ग्रा. व पो. सातनपुरवा, तिलोई, जि. रायबरेली ।	-वही-
97.	-वही-	94-सतावाँ	श्री कैलाश प्रसाद श्रीवास्तव, ग्रा. किशुनपुर, रामचन्द्रपुर, पो. अहियापुर, जि. रायबरेली ।	-वही-
98.	-वही-	-वही-	श्रीमती बूदा, ग्रा. दूलापुर पो. नीवी, जि. रायबरेली ।	-वही-
99.	-वही-	-वही-	श्री रामखेलावन, ग्रा. पूरे महिपत म. अटौरा बुजुर्ग, पो. अटौरा बुजुर्ग, जि. रायबरेली ।	-वही-
100.	-वही-	-वही-	श्रीमती सुरेखा, ग्रा. व पो. मुबारकपुर, तह. लालगंज, जि. रायबरेली ।	-वही-
101.	-वही-	95-सरेनी	श्री अशोक सिंह, ग्रा. वाजपेयीपुर, पो. सिधौरतारा, रायबरेली ।	-वही-
102.	-वही-	-वही-	श्री मैकूलाल, ग्रा. लखनगाँव, पो. मल्केगाँव, जि. रायबरेली ।	-वही-
103.	-वही-	-वही-	श्री शीतल, हमीरगाँव मजरे वहूपुर, पो. रायपुर मझिगाँवाँ, सरेनी, लालगंज, रायबरेली ।	-वही-
104.	-वही-	-वही-	श्रीमती सुरेखा, ग्रा. व पो. मुबारकपुर, जि. रायबरेली ।	-वही-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
105.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007	96-डलमऊ	श्री सत्य प्रकाश, म. नं. 234 फिरोज गांधी नगर शहर, रायबरेली ।	निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
106.	-वही-	-वही-	श्री श्यामलाल, ग्रा. सवैया मीरा, पो. सवैया हसन, तह. ऊचाँहार, रायबरेली ।	-वही-
107.	-वही-	97-सलोन (अ.जा.)	श्री मातादीन, ग्रा. रायपुर टोही, पो. मऊ, तह. सलोन, रायबरेली ।	-वही-
108.	-वही-	105-अमेठी	श्री वासदेव, ग्रा. गोठवा, पो. दरखा, तह. अमेठी, सुलतानपुर ।	-वही-
109.	-वही-	106-गौरीगंज	श्री अविनाश कुमार, ग्रा. पचेहरी, पो. गौरीगंज, जि. सुलतानपुर ।	-वही-
110.	-वही-	-वही-	श्री बलकरन, ग्रा. गोपियापुर, पो. कितियावां, सुलतानपुर ।	-वही-
111.	-वही-	107-जगदीशपुर	श्री लक्ष्मी नारायण, (अ.जा.) ग्रा. मुबारकपुर, पो. जगदीशपुर, तह. मु. खाना, जि. सुलतानपुर ।	-वही- -वही-
112.	-वही-	-वही-	श्री रामदेव, ग्रा. गुनैया मजरे सरैया, उर्फ मु. खाना, पो. व थाना व तह. मु. खाना, जि. सुलतानपुर ।	-वही-
113.	-वही-	109-सुलतानपुर	श्री नाथ, ग्रा. रानीपुर कायस्थ, पो. कादीपुर, जि. सुलतानपुर ।	-वही-
114.	-वही-	-वही-	श्री अखण्ड प्रताप सिंह, 2365 विवेक नगर, जि. सुलतानपुर ।	-वही-
115.	-वही-	-वही-	श्री कुमकुम, ग्रा. उतमानपुर, पो. कुड़बार, सुलतानपुर ।	-वही-
116.	-वही-	110-जयसिंहपुर	श्री बृजेश कुमार, ग्रा. पूरेहिन्छा का पुरवा मजरे अमहट, पो. दूबेपुर जि. सुलतानपुर ।	-वही-
117.	-वही-	-वही-	श्री जोखूराम, ग्रा. मानापट्टी, पो. गौरा, जि. सुलतानपुर ।	-वही-
118.	-वही-	-वही-	श्री नियाज, ग्रा. इटकौली, पो. सैफुल्लागंज, जि. सुलतानपुर ।	-वही-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
119.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007	110-जयसिंहपुर	श्री रामचन्द्र, ग्रा. वं पो. अठैसी, जि. सुलतानपुर ।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
120.	-वही-	-वही-	श्री राम प्रसाद, ग्रा. महादेवपुर, पो. यातनगर, जि. सुलतानपुर ।	-वही-
121.	-वही-	111-चौदा	श्री हृदय राम, ग्रा. वं पो. पखरौली, लम्भुआ, जि. सुलतानपुर ।	-वही-
122.	-वही-	-वही-	श्री अइयाज अ., ग्रा. इन्दौली, पो. भुआपाठखौली, लम्भुआ, जि. सुलतानपुर ।	-वही-
123.	-वही-	-वही-	श्री अरविन्द कुमार, ग्रा. घाटमपुर, पो. लम्भुआ, जि. सुलतानपुर ।	-वही-
124.	-वही-	-वही-	श्री आनन्द कुमार, ग्रा. वं पो. नरायनपुर, जि. सुलतानपुर ।	-वही-
125.	-वही-	-वही-	श्री मुरली, ग्रा. वं पो. घाटमपुर, जगन्नाथपुर, लम्भुआ, जि. सुलतानपुर ।	-वही-
126.	-वही-	-वही-	श्री रामजीत (नि. डकाही), ग्रा. डकाही, पो. लम्भुआ, जि. सुलतानपुर ।	-वही-
127.	-वही-	-वही-	श्री राम दयाल, ग्रा. चितावनपुर, पो. रामपुर लम्भुआ, जि. सुलतानपुर ।	-वही-
128.	-वही-	-वही-	श्री हेमन्त कुमार, ग्रा. वं पो. धौरहरा लम्भुआ, जि. सुलतानपुर ।	-वही-
129.	-वही-	112-कादीपुर (अ.जा.)	श्री महेन्द्र प्रताप, ग्रा. मीरपुर प्रतापपुर, पो. बिलवाई, जि. सुलतानपुर ।	-वही-
130.	-वही-	-वही-	श्री राजदेव, ग्रा. दूल्हापुर, पो. वेधरा, जि. सुलतानपुर ।	-वही-
131.	-वही-	-वही-	श्री घनश्याम, ग्रा. बक्सरा, पो. कुन्दा, भैरोपुर, जि. सुलतानपुर ।	-वही-

[सं. 76/उ.प्र.-वि.स./2007]

बर्नाड जॉन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**ORDER**

New Delhi, the 7th February, 2008

O.N. 27.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly in the State of Uttar Pradesh as specified in column (2) held from the Constituency specified in column (3) against his/her name has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said Table;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notices and/or the Election Commission, after considering the representation made by them, if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this Order :—

TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	Sl. No. & Name of Constituency	Name & Address of Contesting Candidates	Reason of Disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2007	1-Seohara	Sh. Nasir Husain, Moh. Islam Nagar, Noorpur, Uttar Pradesh.	Failure to lodge any account of his/her election expenses.
2.	-do-	-do-	Sh. Matloob, Village Dehri Jumman, Post Kothi Khidmatpur, Distt. Moradabad.	-do-
3.	-do-	2-Dhampur	Sh. Tikam Singh, Village Dolatabad, Seohara.	-do-
4.	-do-	-do-	Sh. Aale Hasan, Moh. Nai Basti Naugawan, Sadat, J.P. Nagar.	-do-
5.	-do-	3-Afzalgarh	Sh. Sheikh Afzal, Moh. Imam Bara Sherkot, Tehsil Dhampur, Distt. Bijnor.	-do-
6.	-do-	-do-	Sh. Abid, Vill. & Post Tanda Maidas, Tehsil Nagina, Distt. Bijnor.	-do-
7.	-do-	-do-	Sh. Rajpal, Vill. Sahuwala Gausaiwala, Tehsil Nagina, Distt. Bijnor.	-do-
8.	-do-	4-Nagina (SC)	Sh. Surendra Kumar, Vill. - Pitthapur, Post Seohara.	-do-
9.	-do-	5-Najibabad (SC)	Sh. Rishipal Singh, Moh. Jabtaganj Najibabad, Distt. Bijnor.	-do-
10.	-do-	-do-	Sh. Shriram, B/4/11/380, Lekhanagar, Meerut Cantt.	-do-
11.	-do-	6-Bijnor	Smt. Naiyer Malik, Moh. Lukmanpura, Kiratpur, Bijnor.	-do-

1	2	3	4	5
12.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2007	6-Bijnor	Sh. Samiullah, Village Husainpur Hamid, Habibwala Afzalgarh, Distt. Bijnor.	Failure to lodge any account of his/her election expenses.
13.	-do-	7-Chandpur	Sh. Meghraj, Village & Post Roniya, Tehsil Chandpur, Distt. Bijnor.	-do-
14.	-do-	8-Kanth	Sh. Chhater Pal, Vill-Phoolpur Mithanpur, Teh-Kanth, Uttar Pradesh.	-do-
15.	-do-	10-Hasanpur	Sh. Vijay Singh, Vill. Rahmapur Mafi, P.O. Bachhraon, Teh. Dhanaura, J.P. Nagar.	-do-
16.	-do-	-do-	Sh. Satveer Singh Moh. Kot Purvi, Hasanpur, J.P. Nagar.	-do-
17.	-do-	-do-	Sh. Abrar Ahmed, Moh. Kanoongoyan, Chaudhrian, Dhanaura, J.P. Nagar.	-do-
18.	-do-	-do-	Sh. Sheeshpal Singh, Vill. Putsal, P.O. Ujhari, Tah. Hasanpur, J.P. Nagar.	-do-
19.	-do-	12-Sambhal	Sh. Shivnarayan Saini, Vill. Lakhauri Jalalpur, P.O. Khas, Sambhal.	-do-
20.	-do-	-do-	Sh. Mowahid Husain, Gali Alamwali, Deepa Sarai, Sambhal.	-do-
21.	-do-	-do-	Sh. Mohd. Bilal, Moh. Lodhi Sarai, Sambhal.	-do-
22.	-do-	-do-	Sh. Sharif Ahmad, Moh. Kotgarbi Uttari, Sambhal, Uttar Pradesh.	-do-
23.	-do-	13-Bahjoi	Sh. Neeraj Kumar, Vill. Kaily, P.O. Ancholi, Moradabad.	-do-
24.	-do-	-do-	Sh. Zafaruddin, Vill. - Milak Mau Bhurh, Post-Pavansa, Moradabad.	-do-
25.	-do-	-do-	Sh. Jitendra Singh, Vill.-Nagla Khakam, Teh. Chandausi, Moradabad.	-do-
26.	-do-	-do-	Mohd. Yusuf, Moh-Sadak Sarai, Sirsi, Moradabad.	-do-
27.	-do-	-do-	Sh. Shahid Ali, Vill. & Post-Pathakpur, Moradabad.	Failed to lodge in any account of his/her election expenses in the manner required by law.
28.	-do-	14-Chandausi (SC)	Sh. Mahaveer Singh, Bhagwantpur, Post & Tehsil Shahabad, Distt. Rampur.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.

1	2	3	4	5
29.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2007.	14-Chandausi (SC)	Sh. Maharam Singh, Panchsheel Colony, Gaushala Road, Chandausi, Post Tehsil & Thana Chandausi, Distt. Moradabad.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
30.	-do-	15-Kundarki	Smt. Rameshwari Gyani Wali Basti, Linepar, Moradabad.	-do-
31.	-do-	-do-	Sh. Arif Pasha, Chak Fazalpur, Uttar Pradesh.	-do-
32.	-do-	-do-	Sh. Rakesh Chaudhary, Chiriyather, Uttar Pradesh.	Failed to lodge in any account of his/her election expenses in the manner required by law.
33.	-do-	-do-	Sh. Gevendra Singh, Khavri Gandu, Uttar Pradesh.	-do-
34.	-do-	-do-	Sh. Narottam Singh Saini, Mundiya Jain, Uttar Pradesh.	-do-
35.	-do-	-do-	Sh. Shyam Lal, Udranpur Chak @ Beerampur, Uttar Pradesh.	-do-
36.	-do-	16-Moradabad West	Dr. Kiran Singh Tomar, F-92 Sector 13 Delhi Road, New Moradabad.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
37.	-do-	-do-	Sh. Sanjeev, Moh-Chau Ki Mariya line Par, Moradabad.	-do-
38.	-do-	17-Moradabad	Sh. Rahisan, Moh.-Barbalan North, Moradabad.	Failed to lodge in any account of his/her election expenses in the manner required by law.
39.	-do-	-do-	Sh. Nizam Husain (Pamma), Sakka Doyam Mughalpur Jama Masjid, Moradabad.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
40.	-do-	-do-	Mohd. Hamid Raza, Asalatpura Islamnagar Gali, No. 1, Moradabad.	-do-
41.	-do-	18-Moradabad Rural	Sh. Zakir Husain, Vill. & P.O. Chandpur, Distt. Moradabad.	-do-
42.	-do-	-do-	Sh. Lokesh Kumar Singh, Vill-Ghonda, P.O. Rounda, Moradabad.	-do-
43.	-do-	-do-	Sh. Jitendra Singh, Vill-Kukar Jhundi, P.O. Nebla Kalan, Moradabad.	-do-
44.	-do-	-do-	Sh. Dharamveer Singh Rana, Moh.-Miyan Building Station Road Civil Line, Rampur.	-do-

1	2	3	4	5
45.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2007	18-Moradabad Rura	Sh. Ram Pal Singh, Vill. -Dilra Raipur, Distt. Moradabad.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
46.	-do-	-do-	Sh. Sabir Hussain, Guiyabagh Anshik, R/o. Peetal Basti, Kachchi Basti, Moradabad,	Failed to lodge in any account of his/her election expenses in the manner required by law.
47.	-do-	19-Thakurdwara	Sh. Onkar, Milak Amawati, Thakurdwara.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
48.	-do-	-do-	Sh. Karan Singh, Moh-Tali, Thakurdwara, Moradabad.	-do-
49.	-do-	28-Budaun	Sh. Mukesh Jauhri Chaube, Husaini Gali, Budaun.	-do-
50.	-do-	-do-	Sh. Rajesh Kumar, Sirsaoli, Budaun.	-do-
51.	-do-	30-Binawar	Sh. Krishan Pal, Vill. Mullapur, P.O. Sikrori, Teh. & Distt. Budaun.	-do-
52.	-do-	-do-	Sh. Virendar, Vill. Varamaldev St. Ujhani, Teh. & Distt. Badaun.	-do-
53.	-do-	-do-	Sh. Satyendra Singh, Vill. Kisarua, P.O. Gularia, Teh. & Distt. Badaun.	-do-
54.	-do-	32-Aonla	Sh. Lok Pal, Vill. Nawabpura, P.O. Vuedhankhurd, Teh. Aonla, Distt. Bareilly.	-do-
55.	-do-	33-Sunha	Pooja Kashyap, 1173, Tilak Colony, Subhash Nagar, Bareilly.	-do-
56.	-do-	34-Faridpur (SC)	Sh. Ram Sahai, Vill. Jagania, Harchar Muhal, Post Longpur, Tehsil Faridpur, Distt. Bareilly.	-do-
57.	-do-	35-Bareilly Cantonment	Iftidar-u-ddin, Vill. Thiriya Nizavat Khan, Bareilly.	-do-
58.	-do-	36-Bareilly City	Sh. Javed Khan, 87 Near Fayaz Building, Koharapeer, Bareilly.	-do-
59.	-do-	-do-	Sh. Mahendra Kumar Agrawal, R-4 Rampur Bag, Bareilly.	-do-
60.	-do-	-do-	Sh. Himanshu Pandey 229 Chodhree Mohalla, Bareilly.	-do-
61.	-do-	-do-	Sh. Hari Badu, Moh. Mirdhan Faridpur, Bareilly.	-do-

1	2	3	4	5
62.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2007	37-Nawabganj	Sh. Dinesh Kumar, Vill. Hardua Kifayatullah, Thana & Post Nawabganj, Bareilly.	Failure to lodge any account of his/her election expenses.
63.	-do-	38-Bhojipura	Mohd. Israr Khan, Kanjhadaspur, Izzatnagar, Bareilly.	-do-
64.	-do-	-do-	Sh. Rohan Lal, Vill. Kasimpur Ghunsa, Bareilly.	-do-
65.	-do-	-do-	Sh. Shehar Yar Khan, Vill.-Vivaypur Chowdhary, Bareilly.	-do-
66.	-do-	-do-	Sh. Jhamman Lal, Vill. Kasampura Ghoonsha, Bareilly.	-do-
67.	-do-	39-Kabar	Sh. Abha Singh, D-11/35, Rampur Bagh, Distt. Bareilly.	-do-
68.	-do-	-do-	Sh. Mahipal singh, Vill. Byondha, Shargarh, Distt. Bareilly.	-do-
69.	-do-	40-Baheri	Sh. Shuaib Raza Khan, Moh. Shahgarh, Baheri, Bareilly.	-do-
70.	-do-	-do-	Sh. Om Prakash Panjabi Colony Ward 2, Baheri, Bareilly.	-do-
71.	-do-	43-Bisalpur	Sh. Satyan Bhan Singh, Shivaji Nagar in front of B.T.C. College, Bisalpur.	-do-
72.	-do-	-do-	Sh. Ram Pratap, Vill-Jogi Ther, Bisalpur Uttar Pradesh.	-do-
73.	-do-	44-Puranpur	Sh. Manjeet Singh, Vill.-Sherpur, Makrandpur, Anubhag-2, Puranpur.	-do-
74.	-do-	-do-	Sh. Nathu Baksh, Moh-Sahukara, Puranpur.	-do-
75.	-do-	-do-	Mohd. Uddin, Moh. Narayanpur Khas, Kasba-Khutar, Shahjhanpur.	-do-
76.	-do-	-do-	Sh. Diwakar Shukla, 280, Puranpur, Rural Area.	-do-
77.	-do-	-do-	Sh. Ram Ratan, Vill-Subhanpur Teh. - Purvayan, Shahjhanpur.	-do-
78.	-do-	68-Sandila	Sh. Arun Kumar, Fattepur Pathrauli W. 2, Behdar, Hardoi.	-do-
79.	-do-	-do-	Sh. Ram Kumar, Vill.-Ghuspaha, Post-Kurauni, Hardoi.	-do-

1	2	3	4	5
80.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2007	69-Ahirori (SC)	Sh. Virendra Kumar Verma, Res.-Mahmud Pur, Sandila, Hardoi.	Failure to lodge any account of his/her expenses.
81.	-do-	71-Bawan (SC)	Sh. Hariram, Kallupurwa, Atwa, Asigawan.	-do-
82.	-do-	-do-	Sh. Vishambhar Nath, Abdulbari Majra, Bihat Ta. Shahabad, Hardoi.	-do-
83.	-do-	-do-	Sh. Mohanlal, Sabirpur, P.O. Bawan, Hardoi.	-do-
84.	-do-	-do-	Sh. Soberan Lal, Koilipurwa Majra, Bargawan.	-do-
85.	-do-	72-Pihani	Sh. Piyush Pani Shukla, 178-Boarding House, Hardoi.	-do-
86.	-do-	73-Shahabad	Sh. Ganga Sagar, Vill.-Ahmadpur, Post-Pali, Hardoi.	-do-
87.	-do-	-do-	Sh. Mahipal Vill.-Ahmadpur, Post-Pali, Hardoi.	-do-
88.	-do-	-do-	Sh. Mewa Ram, Vill.-Banavra, Post-Barban, Hardoi.	-do-
89.	-do-	-do-	Sh. Hari Ram, Vill. & Post-Khitaui, Hardoi.	-do-
90.	-do-	74-Bilgram	Sh. Mukash Chandra, Vill. Ghorithar, Post Sitolle, Hardoi.	-do-
91.	-do-	-do-	Sh. Sanjay Pandey, Vill. & Post-Sawayajpur, Hardoi.	-do-
92.	-do-	75-Mallawan	Sh. Anil Kumar Patel, Vill. & Post Ishwarpur Sai, Hardoi.	-do-
93.	-do-	-do-	Sh. Jagannath Prasad, Vill. - Tenduan Post Mallawan, Hardoi.	-do-
94.	-do-	-do-	Sh. Ram Bhajan, Vill. & Post Purvavan. Hardoi.	-do-
95.	-do-	91-Bachhrawan (SC)	Sh. Rajendra Kumar, 92A, Shanti Nagar, Sarojini Nagar, Lucknow.	-do-
96.	-do-	92-Tiloi	Sh. Shami Ulla, Vill. & Post satanpurwa, Tiloi, Raebareli.	-do-
97.	-do-	97-Sataon	Sh. Kailash Prasad Srivastava, Vill. Kisunpur, Ramachanderpur, P.O. Ahiyapur, Distt. Raebareli.	-do-
98.	-do-	-do-	Smt. Booda, Vill. Dulapur, P.O. Nibi, Distt. Raebareli.	-do-

1	2	3	4	5
99.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2007	97-Sataon	Sh. Ramkhelavan, Vill. Puremahipat, HO. Atoura bujurg, P.O. Atora Bujurg, Raebareli.	Failure to lodge any account of his/her election expenses.
100.	-do-	94-Sataon	Smt. Surekha, Vill. & P.O. Mabarakpur, Teh. Lalganj, Distt. Raebareli.	-do-
101.	-do-	95-Sareni	Sh. Ashok Singh, Vill. Bajpaipur, Post Sighaurtara, Distt. Raebareli.	-do-
102.	-do-	-do-	Sh. Maikoolal, Vill. Lakhangaon, Post Malkegaon, Distt. Raebareli.	-do-
103.	-do-	-do-	Sh. Sheetal, Hameergaon, H.O. Bahoopur, Post Raipur Majhigawan, Sareni, Lalganj, Distt. Raebareli.	-do-
104.	-do-	-do-	Smt. Surekha, Vill. & Post Mubarakpur, Distt. Raebareli.	-do-
105.	-do-	96-Dalmau	Sh. Satya Prakash H.No. 234, Firoz Gandhi Nagar, Rae bareli.	-do-
106.	-do-	-do-	Sh. Shyam Lal, Vill. Savaiya Meera, Post Savaiya Hasan, Tehsil Unchahar, Rae bareli.	-do-
107.	-do-	97-Salon (SC)	Mata Deen, Vill. Raipur Todi, Post Mau, Tahsil Salon, Rae bareli.	-do-
108.	-do-	105-Amethi	Sh. Vasdev, Vill. Gothowa, P.O. Darkha, Th. Amethi, Sultanpur.	-do-
109.	-do-	106-Gauriganj	Sh. Abinash Kumar, Vill. Pachehari, P.O. Gauriganj, Sultanpur.	-do-
110.	-do-	-do-	Sh. Balkaran, Vill. Gopiyapur, P.O. Kitiyawan, Sultanpur.	-do-
111.	-do-	107-Jagdishpur (SC)	Sh. Lakshmi Narayan, Vill. Mubarakpur, P.O. Jagdishpur, Distt. Sultanpur.	-do-
112.	-do-	-do-	Sh. Ramdev, Vill. Gunaiya Majre Saraiya urf Musafirkhana, Ps. & Teh. Musafirkhana, Distt. Sultanpur.	-do-
113.	-do-	109-Sultanpur	Sh. Srinath, Vill. Ranipur Kayastha, Post Kadipur, Sultanpur.	-do-
114.	-do-	-do-	Sh. Akhand Pratap Singh, 2365, Vivek Nagar, Sultanpur.	-do-

1	2	3	4	5
115.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2007	109-Sultanpur	Sh. Kumkum, Vill. Uttanpur, Post Kurwar, Sultanpur.	Failure to lodge any account of his/her election expenses.
116.	-do-	110-Jaisinghpur	Sh. Vrijesh Kumar, Vill. Purehinchha Ka Purwa, Majre Amhat, Post Dubepur, Distt. Sultanpur.	-do-
117.	-do-	-do-	Sh. Jokhu Ram, Vill. Manapatti, Post Goura, Distt. Sultanpur.	-do-
118.	-do-	-do-	Sh. Niyaz, Vill. Itkauli, Post Saifullaganj, Distt. Sultanpur.	-do-
119.	-do-	-do-	Sh. Ram Chandra, Vill. & Post-Athaisi Distt. Sultanpur.	-do-
120.	-do-	-do-	Sh. Ram Prasad, Vill. Mahadevpur, Post-Hayatnagar, Distt. Sultanpur.	-do-
121.	-do-	111-Chanda	Sh. Hridaya Ram, Vill./P.O. Pakharauli, Distt. Sultanpur.	-do-
122.	-do-	-do-	Sh. Aiyaj A., Vill. Indauli, P.O. Bhuapathkhauri, Lambhua, Distt. Sultanpur.	-do-
123.	-do-	-do-	Sh. Arvind Kumar, Vill. Ghatampur, P.O. Lambhua, Distt. Sultanpur.	-do-
124.	-do-	-do-	Sh. Anand Kumar, Vill./P.O. Narayanpur, Distt. Sultanpur.	-do-
125.	-do-	-do-	Sh. Murli, Vill./P.O. Ghatampur Jagannathpur, Lambhua, Distt. Sultanpur.	-do-
126.	-do-	-do-	Sh. Ram Jeet (R/O-Dakahi), Vill. Dakahi, P.O. Lambhua, Distt. Sultanpur.	-do-
127.	-do-	-do-	Sh. Ram Dayal, Vill. Chitawanpur, P.O. Rampur, Lambhua, Distt. Sultanpur.	-do-
128.	-do-	-do-	Sh. Hemant Kumar, Vill./P.O. Dhaurahara, Lambhua, Distt. Sultanpur.	-do-
129.	-do-	112-Kadipur (SC)	Sh. Mahendra Pratap, Vill. Meerpur Pratappur, P.O. Bilvayee, Distt. Sultanpur.	-do-
130.	-do-	-do-	Sh. Rajdev, Village Dulhapur, P.O. Bethra, Distt. Sultanpur.	-do-
131.	-do-	-do-	Sh. Ghanshyam, Village Buxara, P.O. Kundabhairopur, Distt. Sultanpur.	-do-

[No. 76/UP-LA/2007]

By Order,
BERNARD JOHN, Secy.

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2008

आ. अ. 28.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (1950 का 43) की धारा 13 कक की उपधाराओं (1) और (2) के अनुसार में, और तारीख 1 दिसम्बर, 2007 की अपनी अधिसूचना संख्या 508/कर्नाटक/2007 के अधिक्रमण में, निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा :

1. नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट कर्नाटक राज्य के प्रत्येक जिले के लिए इसके सामने स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी या अधिकारियों को जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में पदाभिहित करता है, और

2. ऐसे क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करता है, जिसके संबंध में ऐसा प्रत्येक अधिकारी, सारणी के स्तम्भ 3 में दिए गए विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (जिन्हें परिसीमन आयोग की अधिसूचना सं. 282/कर्ना./2007-V तारीख 2 जुलाई, 2007 द्वारा नए सिरे से तथा पूर्ववर्ती सुसंगत निर्वाचन-क्षेत्रों में पड़ने वाले तत्स्थानी क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए परिसीमित किया गया है), के लिए क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा।

सारणी

क्रम. सं. एवं जिले का नाम	जिला निर्वाचन अधिकारी का पदनाम	अधिकारिता का क्षेत्र
1	2	3
1-बेलगाम	उपायुक्त, बेलगाम	1. निप्पानी 2. चिक्कोडी-सदालगा 3. अथानी 4. कागवाड 5. कुडाचि (अ.जा.) 6. रायबाग (अ.जा.) 7. हुक्केरी 8. अराभावी 9. गोकाक 10. येम्कानमारडी (अ.ज.जा.) 11. बेलगाम उत्तर 12. बेलगाम दक्षिण 13. बेलगाम 14. खानापुर 15. किट्टूर 16. बेलहोनाल 17. सौन्दट्टी येल्लाम्मा 18. रामदुर्ग

1	2	3
2-बागलकोट	उपायुक्त, बागलकोट	19. मुधोल (अ.जा.) 20. टेरडाल 21. जामखन्डी 22. बिल्ली 23. बादामी 24. बागलकोट 25. हुनुन्ड
3-बीजापुर	उपायुक्त, बीजापुर	26. मुड्डेबिहाल 27. देवार हिप्पारगी 28. बासवाना बागेवाडी 29. बावालेश्वर 30. बीजापुर सिटी 31. नागथान (अ.जा.) 32. इन्डी 33. सिन्डगी
4-गुलबर्गा	उपायुक्त, गुलबर्गा	34. अफजलपुर 35. जेवागी 36. शोरापुर (अ.ज.जा.) 37. शाहापुर 38. यादगीर 39. गुर्मीत्कल 40. चित्तापुर (अ.जा.) 41. सेडम 42. चिन्चोली (अ.जा.) 43. गुलबर्गा ग्रामीण (अ.जा.) 44. गुलबर्गा दक्षिण 45. गुलबर्गा उत्तर 46. आलन्द
5-बीदर	उपायुक्त, बीदर	47. बासवकल्याण 48. होम्नाबाद 49. बीदर दक्षिण 50. बीदर 51. भाल्की 52. औराद (अ.जा.)
6-रायचूर	उपायुक्त, रायचूर	53. रायचूर ग्रामीण (अ.ज.जा.) 54. रायचूर 55. मानवी (अ.ज.जा.) 56. देवदुर्ग (अ.ज.जा.) 57. लिंगसुगूर (अ.जा.) 58. सिन्धानूर 59. मास्की (अ.ज.जा.)

1	2	3	1	2	3
7-कोप्पल	उपायुक्त, कोप्पल	60. कुस्तागी 61. कनकगिरी (अ.जा.) 62. गंगावटी 63. येल्बुर्गा 64. कोप्पल	13-चित्रदुर्ग	उपायुक्त चित्रदुर्ग	97. मौलाकाल्मुरु (अ.ज.जा.) 98. चल्लाकरे (अ.ज.जा.) 99. चित्रदुर्ग 100. हीरियुर 101. होसदुर्ग 102. होलालकरे (अ.जा.) 103. जगलुर (अ.ज.जा.) 104. हारापान्नाहल्ली 105. हरिहर 106. दावनोरे उत्तर 107. दावनोरे दक्षिण 108. मायाकोन्डा 109. चन्नागिरी 110. होन्नाली 111. शिमोगा ग्रामीण (अ.जा.) 112. भद्रावती 113. शिमोगा 114. तिरथाहल्ली 115. शिकारीपुरा 116. सोराब 117. सागर
8-गदाग	उपायुक्त, गदाग	65. शिराहट्टी (अ.जा.) 66. गदाग 67. रोन 68. नारगुंड	14-दावनोरे	उपायुक्त, दावनोरे	118. बैनदुर 119. कुन्डापुर 120. उदीपी 121. कौप 122. करकाला 123. सिरीगेरी 124. मुदीगेरे (अ.जा.) 125. चिकमगलुर 126. तारीकरे 127. काडुर 128. चिकनैकानाहल्ली 129. टिप्पुर 130. दुरुवेकरे 131. कुनिगल 132. दुमकुर शहर 133. दुमकुर ग्रामीण 134. कोराटगेरे (अ.जा.) 135. गुब्बी 136. सिरा 137. पावागाडा (अ.जा.) 138. मधुगिरि
9-धारवाड़	उपायुक्त, धारवाड़	69. नवल गुंड 70. कुण्डगोल 71. धारवाड़ 72. हुबली-धारवाड़-पूर्व (अ.जा.) 73. हुबली-धारवाड़-केन्द्रीय 74. हुबली-धारवाड़-पश्चिम 75. कालघाटगी	15-शिमोगा	उपायुक्त, शिमोगा	
10-उत्तर कन्नड	उपायुक्त, उत्तर कन्नड	76. हलियाल 77. कारवार 78. कुमटा 79. भाटकल 80. सिरसी 81. येल्लापुर	16-उदीपी	उपायुक्त, उदीपी	
11-हावेरी	उपायुक्त, हावेरी	82. हानगल 83. शिंगाओं 84. हावेरी (अ.जा.) 85. बयादगी 86. हीरेकेरूर 87. रानीबेन्नुर	17-चिकमगलुर	उपायुक्त, चिकमगलुर	
12-बेल्लारी	उपायुक्त, बेल्लारी	88. हाडागल्ली (अ.जा.) 89. हगरीबोम्मानाहल्ली (अ.जा.) 90. विजयनगर 91. काम्पली (अ.ज.जा.) 92. सिरुगुप्पा (अ.ज.जा.) 93. बेल्लारी (अ.ज.जा.) 94. बेल्लारी सिटी 95. सन्डुर (अ.ज.जा.) 96. कुडलिगी (अ.ज.जा.)	18-दुमकुर	उपायुक्त, दुमकुर	

1	2	3	1	2	3
19-चिक्का-बल्लापुर	उपायुक्त, चिक्काबल्लापुर	139. गौरीबिदनूर 140. बागेपल्ली 141. चिक्काबल्लापुर 142. सिदलाघट्टा 143. चिन्तामणि	22-बंगलौर ग्रामीण	उपायुक्त, बंगलौर (ग्रामीण)	178. होसाकोटे 179. देवनाहल्ली (अ.जा.) 180. डौडडाबल्लापुर 181. नेलामंगला (अ.जा.)
20-कोलार	उपायुक्त, कोलार	144. श्रीनिवासपुर 145. मुलबागल (अ.जा.) 146. कोलार गोल्ड फील्ड (अ.जा.) 147. बंगारापेट (अ.जा.) 148. कोलार 149. मलूर	23-रामनगर	उपायुक्त, रामनगर	182. मगदी 183. रामनगरम 184. कनकपुरा 185. चन्नापटना
21-बंगलौर	1. उपायुक्त, बंगलौर 2. विशेष आयुक्त (प्रशासन) बृहत बंगलौर महानगर पालिका 3. आयुक्त (दक्षिण) बृहत बंगलौर महानगर पालिका 4. आयुक्त (उत्तर) बृहत बंगलौर महानगर पालिका	150. येल्लाहन्का 152. बाँयातरायानापुर 153. यशवंतपुर 155. दसराहल्ली 174. महादेवपुरा (अ.जा.) 176. बंगलौर दक्षिण 177. अलेकल (अ.जा.) 154. राजाराजेश्वरी नगर 162. शिवाजी नगर 163. शान्तिनगर 164. गांधी नगर 165. राजाजी नगर 168. चामराजपेट 169. चिकपेट 166. गोविन्दराज नगर 167. विजय नगर 170. बासावन्नागुडी 171. पद्मानाबा नगर 172. बी. टी. एम. लेआउट 173. जयानगर 175. बोम्मानाहल्ली 151. के. आर. पुरा 156. महालक्ष्मी लेआउट 157. माल्लेश्वरम 158. हेब्बल 159. पुलाकेशीनगर (अ.जा.) 160. सरवागनानगर 161. सी. वी. रमन नगर (अ.जा.)	24-मण्डया	उपायुक्त, मण्डया	186. मालावल्ली (अ.जा.) 187. मड्डुर 188. मेलुकोटे 189. मण्डया 190. श्री रंगापट्टना 191. नागमंगला 192. कृष्णराजपेट 193. श्रवणबेलागोला 194. अरसीकोरे 195. बेलूर 196. हसन 197. होलेनरसीपुर 198. अरकलगुड 199. सकलेशपुर (अ.जा.) 200. बेलथांगडी 201. मोडाबिद्री 202. मंगलौर शहर उत्तर 203. मंगलौर शहर दक्षिण 204. मंगलौर 205. बन्तवाल 206. पुतुर 207. सुल्लिया (अ.जा.) 208. मडीकेरी 209. विराजपेट 210. पिरियापटना 211. कृष्णाराजनगर 212. हुनसुर 213. हेगाडादेवनकोटे (अ.जा.) 214. ननजनगुड (अ.जा.) 215. चामुंडेश्वरी 216. कृष्णराजा 217. चामराजा 218. नरसिंहराजा 219. वरूना 220. टी. नरसीपुर (अ.जा.)
			25-हसन	उपायुक्त, हसन	
			26-दक्षिण कन्नडा	उपायुक्त, दक्षिण कन्नडा	
			27-कोडगु	उपायुक्त, कोडगु	
			28-मैसूर	उपायुक्त, मैसूर	

1	2	3	1	2	3
29-चामराज नगर	उपायुक्त, चामराजनगर	221. हनुर 222. कोल्लेगल (अ.जा.) 223. चामराजनगर 224. गुन्दलुपेट	1-Belgaum	Deputy Commissioner, Belgaum.	12-Belgaum Dakshin 13-Belgaum 14-Khanapur 15-Kittur 16-Bailhongal 17-Saundatti Yellamma 18-Ramdurg 19. Mudhol (SC) 20. Terdal 21. Jamkhandi 22. Bilgi 23. Badami 24. Bagalkot 25. Hungund 26. Muddebihal 27. Devar Hippargi 28. Basavana Bagevadi 29. Babaleshwar 30. Bijapur City 31. Nagthan (SC) 32. Indi 33. Sindgi 34. Afzalpur 35. Jevargi 36. Shorapur (ST) 37. Shahapur 38. Yadgir 39. Gurmitkal 40. Chittapur (SC) 41. Sedam 42. Chincholi (SC) 43. Gulbarga Rural (SC) 44. Gulbarga Dakshin 45. Gulbarga Uttar 46. Aland 47. Basavakalyan 48. Honnabad 49. Bidar South 50. Bidar 51. Bhalki 52. Aurad (SC)
		[सं. 508/कर्नाटक/2008] आदेश से, तपस कुमार, प्रधान सचिव	2-Bagalkot	Deputy Commissioner, Bagalkot	
		New Delhi, the 19th March, 2008	3-Bijapur	Deputy Commissioner, Bijapur	
		O.N. 28.—In pursuance of sub-sections (1) and (2) of Section 13AA of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), and in supersession of its notification No. 508/KT/2007 dated 1st December, 2007, the Election Commission, in consultation with the State Government, hereby:	4-Gulbarga	Deputy Commissioner, Gulbarga	
		(1) designates for each district in the State of Karnataka, specified in column 1 of the Table below, the officer or officers specified against it in column 2 thereof, as the District Election Officer for the District, and			
		(2) specifies the area in respect of which each such officer shall exercise jurisdiction, (i.e. the area comprised within assembly constituencies as delimited a new <i>vide</i> Delimitation Commission's Notification No. 282/KT/2007-V, dated 2nd July, 2007 and including the corresponding area comprised within the relevant earlier constituency) in column 3 of the Table.			
TABLE					
Sl. No. & Name of District	Designation of District Election Officer	Area of jurisdiction			
1	2	3			
1-Belgaum	Deputy Commissioner, Belgaum.	1-Nippani 2-Chikkodi-Sadalga 3-Athani 4-Kagwad 5-Kudachi (SC) 6-Raybag (SC) 7-Hukkeri 8-Arabhavi 9-Gokak 10-Yemkanmardi (ST) 11-Belgaum Uttar	5-Bidar	Deputy Commissioner, Bidar	

1	2	3	1	2	3
6-Raichur	Deputy Commissioner, Raichur	53. Raichur Rural (ST) 54. Raichur 55. Manvi (ST) 56. Devadurga (ST) 57. Lingsugur (SC) 58. Sindhanur 59. Maski (ST)	12-Bellary	Deputy Commissioner, Bellary	88. Hadagalli (SC) 89. Hagaribom- manahalli (SC) 90. Vijayanagara 91. Kampli (ST) 92. Siruguppa (ST) 93. Bellary (ST) 94. Bellary City 95. Sandur (ST) 96. Kudligi (ST)
7-Koppal	Deputy Commissioner, Koppal	60. Kushtagi 61. Kanakagiri (SC) 62. Gangawati 63. Yelburga 64. Koppal	13-Chitra- durga	Deputy Commissioner, Chitradurga	97. Molakalmuru (ST) 98. Challakere (ST) 99. Chitradurga 100. Hiriyur 101. Hosadurga 102. Holalkere (SC)
8-Gadag	Deputy Commissioner, Gadag	65. Shirahatti (SC) 66. Gadag 67. Ron 68. Nargund	14-Dava- nagere	Deputy Commissioner, Davanagere	103. Jagalur (ST) 104. Harapanahalli 105. Harihar 106. Davanagere North 107. Davanagere South 108. Mayakonda (SC) 109. Channagiri 110. Honnali
9-Dharwad	Deputy Commissioner, Dharwad	69. Navalgund 70. Kundgol 71. Dharwad 72. Hubli-Dharwad- East (SC) 73. Hubli-Dharwad- Central 74. Hubli-Dharwad West 75. Kalghatgi	15-Shimoga	Deputy Commissioner, Shimoga	111. Shimoga Rural (SC) 112. Bhadravati 113. Shimoga 114. Tirthahalli 115. Shikaripura 116. Sorab 117. Sagar
10-Uttara Kannada	Deputy Commissioner, Uttara	76. Haliyal 77. Karwar 78. Kumta 79. Bhatkal 80. Sirsi 81. Yellapur	16-Udupi	Deputy Commissioner, Udupi	118. Baindur 119. Kundapur 120. Udupi 121. Kaup 122. Karkala
11-Haveri	Deputy Commissioner, Haveri	82. Hangal 83. Shiggaon 84. Haveri (SC) 85. Byadgi 86. Hirekerur 87. Ranibennur	17-Chick- magalur	Deputy Commissioner, Chickmagalur	123. Sringeri 124. Mudigere (SC) 125. Chickmagalur 126. Tarikere 127. Kadur

1	2	3	1	2	3
18-Tumkur	Deputy Commissioner, Tumkur	128. Chiknayakan-halli 129. Tiptur 130. Turuvekere 131. Kunigal 132. Tumkur City 133. Tumkur Rural 134. Koratagere (SC) 135. Gubbi 136. Sira 137. Pavagada (SC) 138. Madhugiri 139. Gauribidanur 140. Bagepalli 141. Chikkaballapur 142. Sidlaghatta 143. Chintamani 144. Srinivasapur 145. Mulbagal (SC) 146. Kolar Gold Field (SC) 147. Bangarapet (SC) 148. Kolahr 149. Malur 150. Yelahanka 152. Byatarayana-pura 153. Yeshvanthapura 155. Dasarahalli 174. Mahadevapura (SC) 176. Bangalore South 177. Anekal (SC) 154. Rajarajeshwari Nagar 162. Shivajinagar 163. Shanti Nagar 164. Gandhi Nagar 165. Rajaji Nagar 168. Chamrajpet 169. Chickpet 166. Govindraj Nagar 167. Vijay Nagar 170. Basavanagudi 171. Padmanaba Nagar 172. B.T.M Layout 173. Jayanagar 175. Bommanahalli	21-Bangalore	(4) Deputy Commissioner, (North) Bruhat Bangalore Mahanagara Palike	151. K.R. Pura 156. Mahalakshmi-Layout 157. Malleshwaram 158. Hebbal 159. Pulakeshingar (SC) 160. Sarvagnanagar 161. C.V. Raman Nagar (SC) 178. Hosakote 179. Devanahalli (SC) 180. Doddaballapur 181. Nelamangala (SC) 182. Magadi 183. Ramanagaram 184. Kanakapura 185. Channapatna 186. Malavalli (SC) 187. Maddur 188. Melukote 189. Mandya 190. Shrirangapattana 191. Nagamangala 192. Krishnarajpet 193. Shravanabelagola 194. Arsikere 195. Belur 196. Hassan 197. Holenarasipur 198. Arkalgud 199. Sakleshpur (SC) 200. Belthangady 201. Moodabidri 202. Mangalore City Kannada North 203. Mangalore City South 204. Mangalore 205. Bantva 206. Puttur 207. Sullia (SC)
19-Chikkaballapur	Deputy Commissioner, Chikkaballapur		22-Bangalore Rural	Deputy Commissioner, Bangalore (Rural)	
20-Kolar	Deputy Commissioner, Kolar		23-Ramanagar	Deputy Commissioner, Ramanagar	
21-Bangalore	(1) Deputy Commissioner, Bangalore (2) Special Commissioner, (Administration), Bruhat Bangalore Mahanagara Palike (3) Deputy Commissioner, (South) Bruhat Bangalore Mahanagara Palike		24-Mandya	Deputy Commissioner, Mandya	
			25-Hassan	Deputy Commissioner, Hassan	
			26-Dakshina Kannada	Deputy Commissioner, Dakshina	

1	2	3
27-Kodagu	Deputy Commissioner, Kodagu	208. Madikeri 209. Virajpet
28-Mysore	Deputy Commissioner, Mysore	210. Piriapatna 211. Krishnaraja- nagara 212. Hunsur 213. Heggadade- vankote (ST) 214. Nanjangud (SC) 215. Chamundesh- wari 216. Krishnaraja 217. Chamaraja 218. Narasimharaja 219. Varuna 220. T. Narasipur (SC) 221. Hanur 222. Kollegal (SC) 223. Chamarajanagar 224. Gundlupet
29-Chamaraja- nagar	Deputy Commissioner, Chamarajanagar	

[No. 508/KT/2008]

By Order,

TAPAS KUMAR, Principal Secy.

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2008

आ. अ. 29.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में आयोग की दिनांक 13-03-2008 की पूर्व की अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, कर्नाटक सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा श्री एम.एन. विद्याशंकर, आई.ए.एस. (के.टी. 1982), को कर्नाटक राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है, जो दिनांक 31-03-2008 से प्रभावी होगा।

2. श्री आर. रामसेशन, आई.ए.एस., निर्वाचन विभाग में, दिनांक 31-03-2008 से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति पर जाने तक, एक विशेष कार्य अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। निर्वाचन विभाग में एक

विशेष कार्य अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए वे अपने वेतन का आहरण अपने वर्तमान तैनाती के स्थान से करते रहेंगे।

3. श्री विद्याशंकर कर्नाटक सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

4. श्री विद्याशंकर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्नाटक के रूप में कार्य करते हुए कर्नाटक सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग का प्रभारी, सरकार का सचिव पदाभिहित किया जायेगा।

[सं. 154/के.टी./2008-का. प्रशासन]

आदेश से,

एस. आर. कार, अवर सचिव

New Delhi, the 26th March, 2008

O.N. 29.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) and in partial modification of the Commission's earlier Notification dated 13-03-2008 in this behalf, the Election Commission of India in consultation with the Government of Karnataka, hereby nominates Shri M.N. Vidyashankar, IAS (KT : 1982) as the Chief Electoral Officer for the State of Karnataka with effect from 31-03-2008.

2. Shri R. Ramaseshan, IAS, will work as Officer on Special Duty in the Election Department with effect from 31-3-2008 till he proceeds on voluntary retirement. While working as Officer on Special Duty in the Election Department he will continue to draw his pay from his present place of posting.

3. Shri Vidyashankar shall cease to hold, and hand over, forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Karnataka, which he may be holding before such assumption of office.

4. Shri Vidyashankar while functioning as the Chief Electoral Officer, Karnataka shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Karnataka except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[No. 154/KT/2008-P. Admn.]

By Order,

S. R. KAR, Under Secy.

989 957 08-7

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2008

एस. आर. कार, अवर सचिव

New Delhi, the 26th March, 2008

आ. अ. 30.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, (1950 का 43) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, आन्ध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा श्री वेंकटरमणि भास्कर, आई.ए.एस. के स्थान पर डा. आई.वी. सुब्बाराव, आई.ए.एस. (आर.आर. 1979), को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. डा. आई.वी. सुब्बाराव आन्ध्र प्रदेश के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

4. डा. आई.वी. सुब्बाराव मुख्य निर्वाचन अधिकारी, आन्ध्र प्रदेश के रूप में कार्य करते हुए आन्ध्र प्रदेश सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग का प्रभारी, सरकार का सचिव पदाभिहित किया जायेगा।

[सं. 154/ए.पी./2007-का. प्रशासन]

आदेश से,

O.N. 30.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) the Election Commission of India in consultation with the Government of Andhra Pradesh hereby nominates Dr. I.V. Subba Rao, IAS (RR : 1979) as the Chief Electoral Officer for the State of Andhra Pradesh with effect from the date he takes over charge and until further orders *vice* Shri Venkataramani Bhaskar, IAS.

2. Dr. I.V. Subba Rao, shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Andhra Pradesh, which he may be holding before such assumption of office.

3. Dr. I.V. Subba Rao while functioning as the Chief Electoral Officer, Andhra Pradesh shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Andhra Pradesh except that the should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[No. 154/AP/2007-P. Admn.]

By Order,

S. R. KAR, Under Secy.